



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 364]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 1981/कार्तिक 19, 1903

No. 364] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 1981/KARTIKA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

खाद्य विभाग

प्रादेश

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1981

सां०कां०नि० 586(अ).—प्रा० व०/चीनी:—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्रादेश करती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इस प्रादेश का संक्षिप्त नाम चीनी (1981-82 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) प्रादेश, 1981 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1981-82 में उत्पादित चीनी की कीमत:—केन्द्रीय सरकार इससे उपावद्ध अनुसूची 1, 2, 3 और 4 के स्तम्भ (2) से (7) में विनिर्दिष्ट कीमतों को उन कीमतों के रूप में अवधारित करती है, जो उसमें उल्लिखित भारतीय चीनी मानक (प्रा० ची० सा०) श्रेणियों की उस चीनी के लिए देय हैं, जो "ए" टिबल सए टाट के घोरों में पैक हैं और उक्त अनुसूचियों के स्तम्भ (1) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट और इससे उपावद्ध अनुसूची 5 और 6 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित सभी निर्वात-कड़ाह चीनी कारखानों द्वारा, 1981-82 में उत्पादित की गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा, लेवी चीनी प्रदाय (नियन्त्रण) प्रादेश, 1979 के खंड 2 के उपखंड (1) के अधीन किए गए प्रादेश में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों, संगठनों या राज्य सरकारों को, क्रेता के विकल्प पर, (i) रेल

वेगनों में, या (ii) क्रेता की गाड़ियों, लारियों या परिवहन के अन्य साधनों में कारखाने के द्वार पर/कारखाने के गोदाम में परिवहन के लिए अपेक्षित है ;

परन्तु जहां कोई चीनी कारखाना निकटतम रेल स्टेशन से या रेल के किसी बाहरी अधिकरण से या कारखाने के बाहर गोदाम से, जिसका रेल सम्पर्क नहीं है, पांच किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है वहां उत्पादक रेल द्वारा मांगे जाने की दशा में, चीनी कारखाने और ऐसे रेल स्टेशन या रेल के बाहरी अधिकरण के बीच या गोदाम के द्वार पर परिवहन की दशा में, चीनी कारखाने और ऐसे गोदाम के बीच की पांच किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए प्रति बिबटल चीनी पर प्रति किलोमीटर तीन पैसे की दर से अतिरिक्त प्रभार ले सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इस प्रादेश में—

(क) पूर्वोक्त अनुसूची 1, 2, 3 और 4 के स्तम्भ (2) से (7) में विनिर्दिष्ट कीमतों के अन्तर्गत, उत्पाद-शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, जो विक्रय कर के बदले में है और विशेष उत्पाद-शुल्क नहीं है जिसकी वसूली उत्पादक, सुसंगत समय पर प्रवृत्त दर पर, इस प्रादेश द्वारा अवधारित कीमतों के अतिरिक्त कर सकेगा ;

(ख) पूर्वोक्त अनुसूची 1 और 3 के स्तम्भ (2) से (7) में विनिर्दिष्ट कीमतों के अन्तर्गत, कारखाने के गोदामों से परिवहन का और क्रेता के विकल्प पर, रेल स्टेशन या उत्पादक द्वारा साधारणतः उपयोग किए जाने वाले साइडिंग पर रेल वेगनों में लदाई का खर्च भी है और उनमें साइडिंग या वेगनकर्षण, निभार और अन्य आनुवंशिक व्यय भी सम्मिलित है ;

(ग) पूर्वोक्त अनुसूची 2 और 4 के स्तम्भ (3) से (7) में विनिर्दिष्ट कीमतों के अन्तर्गत, कारखाने के गोदामों से परिवहन का और केता के विकल्प पर, बीनी की गाड़ियों लारियों, या परिवहन के अन्य साधनों में, कारखाने के द्वारा पर/कारखाने गोदाम में लवाई खर्च भी है और उसमें अन्य सभी आनुषंगिक व्यय भी सम्मिलित है।

(घ) भारतीय बीनी मानक (भा० बी० मा०) श्रेणियों से निवेशक, राष्ट्रीय बीनी संस्थान, कामपुर द्वारा जारी की गई बोलतों में बीनी के मानक मोहुर बन्ध मसूनों द्वारा निरूपित श्रेणियाँ अभिप्रेत हैं, जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा विहित ए-30, बी-30, सी-30, डी-30, ई-30 और ए-29, बी-29, सी-29 डी-29 और ई-29 मानकों के अनुरूप हैं।

अनुसूची 1

(खण्ड दो देखिए)

अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट कारखानों के बारे में भा० बी० मा० श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार रेल डिब्बों में परिधान की दशा में (प्रति क्विंटल रुपयों में) कीमतें (उत्पाद-शुल्क रहित)

क्षेत्र	शर्करा के भारतीय शर्करा मानक ग्रेड					
	ए-30 बी-30 सी-30	डी-30	ई-30	ए-29 बी-29 सी-29	डी-29	ई-29
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	304.67	303.52	302.97	303.67	302.67	302.17
हरियाणा	318.00	316.85	316.30	317.00	316.00	315.50
राजस्थान	333.41	332.26	331.71	332.41	331.41	330.91
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	277.15	276.00	275.45	276.15	275.15	274.65
मध्य उत्तर प्रदेश	291.11	289.96	289.41	290.11	289.11	288.61
पूर्वी उत्तर प्रदेश	313.96	312.81	312.26	312.96	311.96	311.46
उत्तरी बिहार	316.58	315.43	314.88	315.58	314.58	314.08
गुजरात	284.90	283.75	283.20	283.90	282.90	282.40
मध्य प्रदेश	364.91	363.76	363.21	363.91	362.91	362.41
महाराष्ट्र	282.94	281.79	281.24	281.94	280.94	280.44
कर्नाटक	282.57	281.42	280.87	281.57	280.57	280.07
आन्ध्र प्रदेश	295.00	293.85	293.30	294.00	293.00	292.50
तमिलनाडु तथा पांडिचेरी	304.05	302.90	302.35	303.05	302.05	301.55
असम, उड़ीसा, पं० बं० तथा नागालैंड	314.27	313.12	312.57	313.27	312.27	311.77
केरल तथा गोवा	301.29	300.14	299.59	300.29	299.29	298.79

अनुसूची 2

(खण्ड 2 देखिए)

अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट कारखानों के बारे में भा० बी० मा० श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार केता की गाड़ियों लारियों या परिवहन के अन्य साधनों से, कारखाने के द्वारा पर/कारखाने के गोदाम में, परिधान की दशा में (प्रति क्विंटल रुपयों में) कीमतें (उत्पाद-शुल्क रहित)

क्षेत्र	शर्करा के भारतीय शर्करा मानक ग्रेड					
	ए-30 बी-30 सी-30	डी-30	ई-30	ए-29 बी-29 सी-29	डी-29	ई-29
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	304.29	303.14	302.59	303.29	302.29	301.79
हरियाणा	317.28	316.13	315.58	316.28	315.28	314.78
राजस्थान	332.87	331.72	331.17	331.87	330.87	330.37
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	277.05	275.90	275.35	276.05	275.05	274.55
मध्य उत्तर प्रदेश	290.80	289.65	289.10	289.80	288.80	288.30
पूर्वी उत्तर प्रदेश	313.69	312.54	311.99	312.69	311.69	311.19
उत्तरी बिहार	316.27	315.12	314.57	315.27	314.27	313.77
गुजरात	284.62	283.47	282.92	283.62	282.62	282.12
मध्य प्रदेश	363.35	362.20	361.65	362.35	361.35	360.85
महाराष्ट्र	282.26	281.11	280.56	281.26	280.26	279.76
कर्नाटक	282.47	281.32	280.77	281.47	280.47	279.97
आन्ध्र प्रदेश	294.51	293.36	292.81	293.51	292.51	292.01
तमिल भाडु और पांडिचेरी	303.83	302.68	302.13	302.83	301.83	301.33
असम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और नागालैंड	313.06	311.91	311.36	312.06	311.06	310.56
केरल और गोवा	301.05	299.90	299.35	300.05	299.05	298.55

अनुसूची 3

(खण्ड 2 देखिए)

अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट कारखानों के बारे में भा० जी० मा० श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार रेल डिब्बों में परिवहन की दशा में (प्रति विवटन रुपयों में) कीमतें (उत्पाद-शुल्क रहित)

जोन	शर्करा के भारतीय शर्करा मानक ग्रेड					
	ए-30 बी-30 सी-30	डी-30	ई-30	ए-29 बी-29 सी-29	डी-29	ई-29
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	330.67	329.52	328.97	329.87	328.67	328.17
राजस्थान	359.41	358.26	357.71	358.41	357.41	356.91
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	303.15	302.00	301.45	302.15	301.15	300.65
मध्य उत्तर प्रदेश	317.11	315.96	315.41	316.11	315.11	314.61
पूर्वी उत्तर प्रदेश	339.96	338.81	338.26	338.96	337.96	337.46
उत्तरी बिहार	342.58	341.43	340.88	341.58	340.58	340.08
वैशाली बिहार	390.61	389.46	388.91	389.61	388.61	388.11
मध्य प्रदेश	390.91	389.76	389.21	389.91	388.91	388.41
महाराष्ट्र	308.94	307.79	307.24	307.94	306.94	306.44
कर्नाटक	308.57	307.42	306.87	307.57	306.57	306.07
मराठवाड़ा प्रदेश	321.00	319.85	319.30	320.00	319.00	318.50
तमिलनाडु	330.05	328.90	328.35	329.05	328.05	327.55
उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	340.27	339.12	338.57	339.27	338.27	337.77
केरल	327.29	326.14	325.59	326.29	325.29	324.79

अनुसूची 4

(खण्ड 2 देखिए)

अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट कारखानों के बारे में भा० जी० मा० श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार जेता की गाड़ियों, लारियों या परिवहन के अन्य साधनों से कारखाने के द्वार पर/कारखाने के गोदाम में परिवहन की दशा में (प्रति विवटन रुपयों में) कीमतें (उत्पाद-शुल्क रहित)

जोन	शर्करा के भारतीय शर्करा मानक ग्रेड					
	ए-30 बी-30 सी-30	डी-30	ई-30	ए-29 बी-29 सी-29	डी-29	ई-29
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	330.29	329.14	328.59	329.29	328.29	327.79
राजस्थान	358.87	357.72	357.17	357.87	356.87	356.37
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	303.05	301.90	301.35	302.05	301.05	300.55
मध्य उत्तर प्रदेश	316.80	315.65	315.10	315.80	314.80	314.30
पूर्वी उत्तर प्रदेश	339.69	338.54	337.99	338.69	337.69	337.19
उत्तरी बिहार	342.27	341.12	340.57	341.27	340.27	339.77
वैशाली बिहार	390.21	389.06	388.51	389.21	388.21	387.71
मध्य प्रदेश	389.35	388.20	387.65	388.35	387.35	386.85
महाराष्ट्र	308.26	307.11	306.56	307.26	306.26	305.76
कर्नाटक	308.47	307.32	306.77	307.47	306.47	305.97
मराठवाड़ा प्रदेश	320.51	319.36	318.81	319.51	318.51	318.01
तमिल नाडु	329.83	328.68	328.13	328.83	327.83	327.33
उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	339.06	337.91	337.36	338.06	337.06	336.56
केरल	327.05	325.90	325.35	326.05	325.05	324.55

अनुसूची 5

(खंड 2 देखिए)

उन निर्वात कड़ाह सूची कारखानों की सूची जिनका निर्माण (नई या पुरानी मशीनरी सहित) (i) 1 अक्टूबर, 1955 को या उसके पश्चात् या (ii) 1 अक्टूबर, 1955 के पूर्व किया गया है और जिनकी गन्ना पीसने की अनुज्ञप्त क्षमता निम्नलिखित है, अर्थात्:—

- (क) 1250 टन या उससे अधिक है; या
- (ख) 1250 टन से कम है किन्तु जिनकी उदारीकृत अनुज्ञापन नीति के अधीन या अन्यथा विस्तारित क्षमता 1250 टन या उससे अधिक है; या
- (ग) 1250 टन से कम है, किन्तु जिन्होंने गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में 1250 टन तक या उससे अधिक प्रेषण किया है।

पंजाब

1. श्री मोरिण्डा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, मोरिण्डा, जिला रोपड़।
2. श्री मालवा शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, धुरी, जिला संगरूर।
3. श्री जनता कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, भोगपुर, पो० आ० जिला, जलंधर।
4. श्री दोआब कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, नवांशहर, जिला जलंधर।
5. श्री बटाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, बटाला, जिला गुरदासपुर।
6. पंजाब खांड उद्योग लिमिटेड, पो० आ० बाक्स 27, गुडदासपुर।
7. पंजाब खांड उद्योग लिमिटेड, जीरा, जिला फिरोजपुर।

हरियाणा

1. दि भरखती शुगर मिल्स, पो० आ० यमुनानगर, जिला अम्बाला।
2. श्री हरियाणा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, रोहतक पो० आ०, जिला रोहतक।
3. श्री पानीपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पानीपत पो० आ०, जिला करनाल।
4. मैसर्स करमल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पो० आ० सोनीपत, जिला सोनीपत।

राजस्थान

1. श्री केशोरसंपतन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, पो० आ० केशोरसंपतन, जिला बूंदी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश

1. दीराला शुगर वर्क्स, दीराला, जिला मेरठ।
2. मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, जिला मेरठ।
3. श्री बागपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पो० आ० बागपत, जिला मेरठ।
4. मोबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोदीनगर, जिला मेरठ।
5. मैसर्स रमाला सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, पो० आ० रमाला, जिला मेरठ।
6. श्री सिम्भावली शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, पो० आ० सिम्भावली, जिला मेरठ।

7. श्री त्रिवेणी इंजिनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, शुगर युनिट, श्री अरपर इण्डिया शुगर मिल्स, खतोली, जिला मुजफ्फरनगर।
8. स्वरूप बेजिटेबल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मनसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर।
9. श्री अमृतसर शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, रोहतास, पो० आ० रोहतास, जिला मुजफ्फरनगर।
10. श्री अरपर दोआब शुगर मिल्स लिमिटेड, शामली, जिला मुजफ्फरनगर।
11. श्री गन्नाजी शुगर एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी, पश्चा नगर, जिला बुलन्दशहर।
12. गंगेश्वर लिमिटेड, देवबन्द, जिला सहारनपुर।
13. दि लार्ड कृष्ण शुगर मिल्स लिमिटेड, सहारनपुर, जिला सहारनपुर।
14. किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, पो० आ० सरसावां, जिला सहारनपुर।
15. राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, लखर, जिला सहारनपुर।
16. दि महालक्ष्मी शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, इकबालपुर पो० आ०, जिला सहारनपुर।
17. श्री किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, नवीता, जिला सहारनपुर।
18. किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, अनूपशहर, पो० आ० जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर।

मध्य उत्तर प्रदेश

1. अरपर गंगा शुगर मिल्स लिमिटेड, शिवहरा, जिला बिजनौर।
2. धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, पो० आ० धामपुर, जिला बिजनौर।
3. दि राजकुमार शुगर मिल्स, पो० आ० राजा-का-शाहसपुर, जिला मुरादाबाद।
4. कुन्दन शुगर मिल्स, प्राइवेट लिमिटेड, अमरोहा, जिला मुरादाबाद।
5. राजा बुलन्द शुगर कम्पनी लिमिटेड, पो० आ० रामपुर, जिला रामपुर।
6. श्री केसर शुगर वर्क्स लिमिटेड, बहेरी, जिला बरेली।
7. एल० आर० शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, पीलीभीत, जिला पीलीभीत।
8. दि किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, मजहोला, जिला पीलीभीत।
9. एल० एच० शुगर फैक्ट्रीज एंड आयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, काशीपुर, जिला नैनीताल।
10. श्री बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, बाजपुर, जिला नैनीताल।
11. श्री किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा, जिला नैनीताल।
12. श्री मेवली शुगर फैक्ट्री, मनपुरनगरिया, पो० आ० त्योली, जिला एटा।
13. श्री अवध शुगर मिल्स लिमिटेड, हरगांव, जिला सीतापुर।
14. श्री लक्ष्मीजी शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, महीली, जिला सीतापुर।
15. मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, पो० आ० नादेही, जिला नैनीताल।

16. डी ड्रिगुमान शुगर मिल्स लिमिटेड, गोनगोकुलनाथ, जिला खीरी ।
17. डी गोबिन्द शुगर मिल्स लिमिटेड, पो० आ० ऐराएस्टेट, जिला खीरी ।
18. शारदा शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पो० आ० बाक्स नं० 30, पालिया जिला खीरी ।
19. डी लक्ष्मी शुगर एंड आयल मिल्स लिमिटेड, हरदोह, जिला हरदोह ।
20. डी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद ।
21. मैसर्स सारणो सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, बेलरयान, जिला खीरी ।
22. किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सेथा (हरदुआगंज) पो० आ० सेथा, जिला अलीगढ़ ।
23. मैसर्स छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड, पो० आ० छाता, जिला मथुरा ।
24. मैसर्स चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड, पो० आ० चांदपुर, जिला बिजनौर ।
25. मैसर्स रुद्रा बिलाम किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो० आ० बिलामपुर, जिला रामपुर ।
26. मैसर्स विशालपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो० आ० विशालपुर, जिला पीलीभीत ।
27. मैसर्स एक्सप्रेसरीमैन्टल शुगर फैक्ट्री (नेशनल शुगर इंडस्ट्रियट) पो० आ० कल्यानपुर, कानपुर ।
28. मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, बदायूं, पो० आ० जिला बदायूं ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश

1. के० एम० शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, मोतीनगर शुगर मिल्स, पो० आ० मोतीनगर, जिला फैजाबाद ।
2. बलरामपुर शुगर कं० लि०, बलरामपुर फैक्ट्री ब्रांच, बलरामपुर, जिला गोण्डा ।
3. तुलसीपुर शुगर कम्पनी लि०, तुलसीपुर फैक्ट्री ब्रांच, पो० आ० तुलसीपुर, जिला गोण्डा ।
4. डी नवाबगंज शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, पो० आ० शुगर फैक्ट्री नवाबगंज, जिला गोण्डा ।
5. डी बस्ती शुगर मिल्स कं० लि०, पो० आ० बस्ती, जिला बस्ती ।
6. सराया शुगर मिल्स प्रा० लि०, सरदारनगर पो० आ० जिला गोरखपुर ।
7. डी शंकर एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, फैटनगंज पो० आ०, जिला देवरिया ।
8. गणेश्वर लिमिटेड रामकोला, जिला देवरिया ।
9. कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड, पडरोना फैक्ट्री ब्रांच, पो० आ० पडरोना, जिला देवरिया ।
10. डी यूनाईटेड प्राइवेट शुगर कम्पनी लिमिटेड, पो० आ० सिबौराही, जिला देवरिया ।
11. डी काशी सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, श्रीराय, जिला वाराणसी ।
12. डी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, रसरा, जिला बुधिया ।
13. डी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, आजमगढ़, जिला आजमगढ़ ।
14. मैसर्स नंदगंज मिरोही, शुगर कम्पनी लिमिटेड, गांव मिरोही पो० आ० नंदगंज, तहसील सीवपुर, जिला गाजीपुर ।

15. मैसर्स नंदगंज-मिरोही शुगर कम्पनी लिमिटेड, दरयापुर मूनिट, पो० आ० बरमापुर, जिला रायबरेली ।

उत्तरी बिहार

1. हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड, पो० आ० हरिनगर, जिला चम्पारण ।
2. श्री कृष्ण ज्ञानदेव शुगर लिमिटेड, पो० आ० लौरिया, जिला चम्पारण ।
3. मोतीलाल पद्मपत्त उद्योग लि०, (शुगर मिल्स ब्रांच), मझौलिया, जिला चम्पारण ।
4. गोबिन्द शुगर मिल्स लिमिटेड, लेखा आफ डी श्री हनुमान शुगर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, पो० आ० मोतीहारी, जिला चम्पारण ।
5. चम्पारण शुगर कं० लि०, जनपतिया फैक्ट्री ब्रांच, पो० आ० जनपतिया, जिला चम्पारण ।
6. लोहाट शुगर वर्क्स आफ डी दरभंगा शुगर कं० लि०, पो० आ० लोहाट, जिला दरभंगा ।
7. न्यू इंडिया शुगर मिल्स लि०, हसनपुर रोड, पो० आ० हसनपुर शुगर मिल्स, जिला दरभंगा ।
8. श्री कृष्ण ज्ञानोदय शुगर लिमिटेड, पो० आ० मोरगंज, जिला सगन ।
9. पूर्णिया कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, बनमानडी, जिला पूर्णिया ।
10. बेलमूंद शुगर कं० लिमिटेड, पो० आ० रीषा, जिला मुजफ्फरपुर ।
11. डी विष्णु शुगर मिल्स लि०, पो० आ० विष्णु शुगर मिल्स गोपालगंज, जिला सगन ।

गुजरात

1. श्री खेदत सहकारी खांड उद्योग मण्डली लिमिटेड, सवार बाग, बरवोली, जिला सूरत ।
2. श्री माध्री विभाग खांड उद्योग सहकारी मण्डली लिमिटेड, माध्री, जिला सूरत ।
3. श्री चेत्यान विभाग खांड उद्योग सहकारी मण्डली लिमिटेड, पो० आ० चेत्यान (वेस्टर्न रेलवे) जिला सूरत ।
4. डी सहकारी खांड उद्योग मण्डली लिमिटेड, गंवेडी, वाया बिलिमोरा, जिला बलसार् ।
5. श्री बिलेश्वर खांड उद्योग छेदत सहकारी मण्डली लिमिटेड, पो० आ० कोडीनार, जिला अमरेली ।
6. श्री ऊना तालुका सहकारी खांड उद्योग मण्डली लिमिटेड, पो० आ० ऊना (सीरठ) जिला जूनागढ़ ।
7. मैसर्स श्री सयान विभाग सहकारी खांड उद्योग मण्डली लिमिटेड, पो० आ० सयान, तालुक मोलपाद, जिला सूरत ।
8. मैसर्स मरोली विभाग खांड उद्योग सहकारी मण्डली लिमिटेड, पो० आ० मरोली, जिला बालसाद ।
9. मैसर्स शिव बालसाद सहकारी खांड उद्योग मण्डली लिमिटेड, परतेश पारदा, जिला बालसाद ।
10. मैसर्स श्री तलाला तालुक सहकारी खांड उद्योग मण्डली लिमिटेड, पो० आ० तलाला (गिर), जिला जूनागढ़ ।
11. मैसर्स श्री सरदार बल्लभभाई पटेल खांड उद्योग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जमनाबाव रोड, धोराजी, जिला राजकोट ।
12. श्री महुवा प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, पो० आ० जे रबावरा, जिला सूरत ।
13. मैसर्स अमेली सहकारी कृषि खांड उद्योग लिमिटेड, अमरेली ।

14. छारोतर सहकारी खोब उद्योग लिमिटेड, पलाज, तहसील पेढवाड, जिला काभरा ।

सध्य प्रवेश ।

1. दी सोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेहोर, जिला सेहोर ।
2. बी मुरेना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, कलरस, जिला मुरेना ।
3. सी मालवा सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, बरेली (कसीपरा), जिला इन्दौर ।

महाराष्ट्र

1. गिरना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० मालेगांव, जिला नासिक ।
2. निफाद सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० ब्रह्मावदनगर, जिला नासिक ।
3. दि संजीवनी (सकली) सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० कोपरगांव, जिला ब्रह्मवदनगर ।
4. कोपरगांव सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, पो० ब्रा० कोनवेवाडी, जिला ब्रह्मवदनगर ।
5. दि गोदावरी शुगर मिल्स लि०, पो० ब्रा० लक्ष्मीवाडी जिला ब्रह्मवदनगर ।
6. श्री गणेश सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गणेशनगर, पो० ब्रा० राजनगांव खुर्द, जिला ब्रह्मवदनगर ।
7. प्रशोक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, प्रशोकनगर, पो० ब्रा० श्रीरामपुर, जिला ब्रह्मवदनगर ।
8. बेलापुर शुगर एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज लि०, हरिगांव, जिला ब्रह्मवदनगर ।
9. दि महाराष्ट्र शुगर मिल्स लि०, पो० ब्रा० तिलकनगर, जिला ब्रह्मवदनगर ।
10. दि प्रावरा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० प्रावरानगर, जिला ब्रह्मवदनगर ।
11. दि राहुरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, श्रीशिवाजीनगर, राहुरी कैवडी ब्रांच, पो० ब्रा० जिला ब्रह्मवदनगर ।
12. दि श्रीगोंडा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, श्रीगोंडा, पो० ब्रा० बेलवन्डी, जिला ब्रह्मवदनगर ।
13. संगमनेर भाग सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० संगमनेर, जिला ब्रह्मवदनगर ।
14. श्रीध्यानेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भांडा बी० के० ताल, निवास, जिला ब्रह्मवदनगर ।
15. गंगापुर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० रघुनाथनगर, तालुक गंगापुर, जिला श्रीरंगवाड ।
16. श्री संत इकनाथ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, वाहेगांव, तालुक पैठान, जिला श्रीरंगवाड ।
17. मैसर्स सिधेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० सिसोद, जिला श्रीरंगवाड ।
18. कन्नड सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, कन्नड, जिला श्रीरंगवाड ।
19. मैसर्स विनायक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पारसोड, तालुक बियापुर, जिला श्रीरंगवाड ।

20. श्रीमा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० पदास, तालुक बोंड, जिला पुणे ।
21. श्री सोमेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, नीरा, जिला पूना ।
22. दि मालेगांव सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० मालेगांव, बी० के० तालुक बारासती, जिला पूना ।
23. श्री छत्रपति सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० चवानीनगर, तालुक इन्हापुर, जिला पूना ।
24. यशवन्त सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, थेयूर, पो० ब्रा० थेयूर, तालुक हवेली, जिला पूना ।
25. बालचन्दनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पो० ब्रा० बालचन्दनगर, जिला पूना ।
26. यशवन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० अकलूज, जिला सोलापुर ।
27. ब्रह्मा शुगर सिंडिकेट लिमिटेड, पो० ब्रा० ओपुर, जिला सोलापुर ।
28. श्री शंकर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, महाशिवनगर, तालुक मलशरोरस, जिला सोलापुर ।
29. श्री सिधेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, कुमाटे, तालुक नार्थ सोलापुर, जिला सोलापुर ।
30. श्री विठ्ठल सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गुरशाळा, तालुक पंधारपुर, जिला सोलापुर ।
31. दि फाल्टन शुगर वर्क्स लि०, पो० ब्रा० शक्करवाडी, जिला सतारा ।
32. श्रीराम सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० फाल्टन, जिला सतारा ।
33. कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, रोठारे बुवक, जिला शिवनगर, जिला सतारा ।
34. सतारा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, माराली, तालुक पाटन, जिला सतारा ।
35. कालासाहेब देगाई सहकारी कारखाना लि०, माराको, तालुक पाटन, जिला सतारा ।
36. सह्याद्री सरकारी शक्कर कारखाना लि०, यशवन्त नगर, तालुक खुर्द, जिला सतारा ।
37. शेतकरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० सांगली, जिला सांगली ।
38. दि बालवा तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शक्करसे इस्लामपुर पोस्ट आफिस, जिला सांगली ।
39. विस्वास सहकारी शक्कर कारखाना लि०, यशवन्तनगर, तालुका शिराला, जिला सांगली ।
40. श्री बरना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० बरनानगर, जिला कोल्हापुर ।
41. दि कोल्हापुर शुगर मिल्स लि०, कोमावा बगशा, पो० ब्रा० कोल्हापुर, जिला कोल्हापुर ।
42. श्री पंचगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० इचालकरजी, जिला कोल्हापुर ।
43. दि भोगवती सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० शाहूनगर, (परीटे), जिला कोल्हापुर ।
44. कुम्भी केसरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कुबीजरे, पो० ब्रा० कोपरडे, तालुक करवीर, जिला कोल्हापुर ।

45. श्री दूधगंगा धेवनगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बिबरी, पोस्ट भ्राफिस मौर्नानगर, तालुक कागल, जिला कोल्हापुर
 46. श्री दत्ता सहकारी शक्कर कारखाना लि०, धमुरले, तहसील शिरोल, जिला कोल्हापुर
 47. श्री दत्ता शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि० शिरोल, तालुक शिरोल, जिला कोल्हापुर
 48. तरना शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० धोकी, जिला उस्मानाबाद
 49. मसर्स शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, किल्लारी, जिला उस्मानाबाद
 50. श्री सतपुडा तापी परिसर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, लोंछोडा तालुक गहवा, जिला धुलिया
 51. श्री पंजारकन सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बबना, तालुक सकरी, जिला धुलिया
 52. बसन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पुसाद, जिला येवतमास
 53. कालम्बर विभा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कालम्बर, तालुक कम्धार, जिला नामदेव
 54. मराठावाडी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पोस्ट भ्राफिस इंगरकाडी, तालुक कोलमनूरी जिला परभनी
 55. धम्बाजुगाई सहकारी शक्कर कारखाना लि०, धम्बाजुगाई, जिला भीर
 56. मधुकर सहकारी शक्कर कारखाना, मर्यादित, नहेवी मार्ग, फैजपुर, जिला जलगांव
 57. मैसर्स बसन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कसोबा, तालुक इरत-डोली, जिला जलगांव
 58. मैसर्स जय भवानी कोभापरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पो० ब्रा० गेबराई, जिला भीर
 59. मैसर्स दीलत शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, यशवन्तनगर, तालुक बान्दगढ़, जिला कोल्हापुर
 60. बेलगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० भोरास, तालुक बालिसगांव, जिला जलगांव
 61. मैसर्स ब्रुवेस्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कस्बा पिम्पलगांव, तालुक पठारवी, जिला अहमदनगर
 62. मैसर्स श्रीय जगन्मबा सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, रशीम तहसील करजात, जिला अहमदनगर
 63. मैसर्स जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लि०, वमारधिव तालुक मेहकर, जिला बुलढाना
 64. मैसर्स कर्मवीर काकासाहेब बाघ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, काकासाहेब नगर, पोस्ट रनवाड, तहसील निफाव, जिला नासिक
 65. मैसर्स कदबा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० मटेरवाडी, तालुक विनडोरी, जिला नासिक
 66. मैसर्स नासिक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पालसे, जिला नासिक
 67. मैसर्स मूला सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० सोनार्ई, तालुक नेवासा, जिला अहमदनगर
 68. मैसर्स काडा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० काडा, तालुक अशती, जिला भीर
 69. मैसर्स गधिंगलाज तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० गधिंगलाज, जिला कोल्हापुर
 70. भोगवती सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, इरत-वैराग, पो० ब्रा० वैराग, जिला सोलापुर
 71. श्री छत्रपति शाहू सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कागल, जिला कोल्हापुर
 72. गोदावरी, दुधना सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, देवनम्बरा, पो० ब्रा० पठारी, जिला परभनी
 73. मैसर्स भीमा सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, टाकली शिकन्दर, तालुक म्हाोल, जिला सोलापुर
 74. मैसर्स गोवावरी मनार सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शंकरनगर, पो० ब्रा० रामतिथी, तालुक बिलोली, जिला ननदेव
 75. मैसर्स पूर्णा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बस्मायनगर, जिला परभनी
- गोवा
1. संजीवनी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, उमगांव, टिस्क, गोवा कर्नाटक
 1. दि उगर शुगर वर्क्स लि०, पो० ब्रा० उगर खुर्द, जिला बेलगांव
 2. हिरण्याकेशी सहकारी शक्कर कारखाना, नियमित, पो० ब्रा० सकेवसर, जिला बेलगांव
 3. श्री मलाप्रभा कोभापरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, एम० के० हुबली, जिला बेलगांव
 4. मैसर्स श्री दूधगंगा कृष्ण सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, चिकोडी जिला बेलगांव
 5. दि बाटप्रभा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, शोकक, जिला बेलगांव
 6. दि इण्डिया शुगर एण्ड रिफाईनरिज लि०, पो० ब्रा० होसपेट, जिला बिलारी
 7. दि काम्पली कोभापरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पो० ब्रा० काम्पली, जिला बिलारी
 8. कोठारी शुगर एण्ड कैमिकल्स लि०, पो० ब्रा० सिरुगुप्पा, जिला बिलारी
 9. श्री मुकेश टेक्सटाइल मिस्ट प्रा० लि०, (तुंगभद्रा शुगर वर्क्स) पो० ब्रा० शिमोगा, जिला शिमोगा
 10. पाण्डवपुरा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० पाण्डवपुरा जिला मांडिया
 11. दि मैसूर शुगर कम्पनी लि०, पो० ब्रा० मांडिया, जिला मांडिया
 12. बसुदेवरी शुगर लि०, कलामुण्डना डाडी, जिला मांडिया
 13. गोरीधियानूर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गोरी विद्वानूर, पो० ब्रा०, जिला कोलार
 14. बिबार सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बिबार, जिला बिबार
 15. वाणीविलास कोभापरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, हीरोपुर, जिला चित्रदुर्ग
 16. देवनगिरी शुगर कं० लि०, खुखरावा, देवनगिरी तालुक, जिला चित्रदुर्ग
 17. सुमह्या शुगर वर्क्स, शमीरवाडी, वाया महालिंगपुर, जिला बीजापुर
 18. श्री महादेवसर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कोलेमैन, जिला मैसूर
 19. श्री श्रीरामा सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, बुनबेनाकाटा, ब्रा० के० नगर तालुक, जिला मैसूर
 20. गंगावती शुगर लि०, श्री रामनगर पोस्ट, जिला रायचूर

21. रायबाग सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, पो० आ० बुशीहल, तालुक रायबाग, जिला बेल्गांव
22. मसर्स भद्रा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, बोदावारी, बेल्गांवरी तालुक, जिला बिजपुर

ग्रामध प्रवेश

1. अमादलावालास कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रीयल सोसायटी लि०, पो० आ० अमादलावालास, जिला श्रीकाकुलम
2. दि इतिकोपाका कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रीयल सोसायटी पो० आ० इतिकोपाका, जिला विशाखापत्तनम
3. दि गोदावरम कोआपरेटिव शुगर लि०, पो० आ० गोदावरी, जिला विशाखापत्तनम
4. दि थंडवा कोआपरेटिव शुगर लि०, पो० आ० पयाकरावपेटा, जिला ईस्ट गोदावरी
5. दि वक्खन शुगर एण्ड आबकारी के० लि०, पो० आ० समालकोट, जिला ईस्ट गोदावरी
6. श्री सरवारया शुगर लि०, चल्ले, जिला ईस्ट गोदावरी
7. वी०बी०एस० शुगर, पो० आ० चल्ले, जिला ईस्ट गोदावरी
8. दि ग्रामध शुगर, पो० आ० तनाकु, जिला पश्चिमी गोदावरी
9. दि पालाकोल कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसायटी लि०, पो० आ० पालाकोल, जिला पश्चिमी गोदावरी
10. दि वेस्ट गोदावरी कोआपरेटिव शुगर लि०, भीमाडोल, जिला वेस्ट गोदावरी
11. चलापल्ली शुगर लि०, पो० आ० चलापल्ली, जिला कृष्णा
12. दि के०सी०पी० लि० ध्यायूर जिला कृष्णा
13. दि निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, शक्करनगर, जिला निजामाबाद
14. दि निजामाबाद कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पो० आ० निजामाबाद, जिला निजामाबाद
15. दि चिन्नूर कोआपरेटिव शुगर लि०, पो० आ० तदातापले जिला चिन्नूर
16. दि निजाम शुगर फैक्ट्री जरिराबाद, पो० आ० डिडगी, जिला मेडक
17. मसर्स बिजयाराम गजापति एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रीयल सोसायटी, पो० आ० भीमसिंगी, जिला विशाखापत्तनम
18. मसर्स कुड्डपा कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, मार्फत रमेश टाकिश, कुड्डपो (चेन्नूर के निकट स्थित जिला कुड्डपा)
19. मसर्स निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, पो० आ० मिरियालगुडा, जिला नासारागोण्डा
20. मसर्स कोबूर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पोथिरेडीपालम, कोबूर तालुक, जिला नेलोर
21. मसर्स श्री वेंकटेश्वरा कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, (तिरुपति) पो० आ० गजुलमान्ध्याम, जिला चिन्नूर
22. मसर्स निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, पारीगी के निकट, पो० आ० हिन्दुपुर, जिला अमन्तापुर
23. मसर्स निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, नम्बर 6, मेटापल्ली, जिला करीम नगर
24. दि नन्दायल कोआपरेटिव शुगर लि०, पो० आ० पन्नापुरम, नन्दायल-518502 जिला कूरनूल

तमिलनाडु

1. दि थंडर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, वेदायुडुपेट, पो० आ० अम्बर, जिला नार्थ अरकोट
2. मदुराकम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पडालम, जिला बिगनेपुट
3. ई० आई० डी० पेरी लि०, नेलीकुप्पम, जिला साउथ अरकोट
4. साउथ इण्डिया स्टील एण्ड शुगर लि०, मूडियापाकम, तालुक विल्लूर-पुरम, जिला साउथ अरकोट
5. अरुण शुगर लि०, पन्नाडम, जिला अरकोट
6. दि कलाकुली कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, जिला मूनीलथूरायपाट्ट (साउथ अरकोट)
7. थिरु अरुन शुगर लि०, पो० आ० थंदापथी मंगलम, जिला तंजौर
8. कोठारी शुगर एण्ड कैमिकल्स लि०, लालगुडी, जिला तिरुचिरापल्ली
9. कावेरी शुगर एण्ड कैमिकल्स लि०, फैक्ट्री पो० आ० पटायवेललाई, जिला तिरुचिरापल्ली
10. दि वक्खन शुगर एण्ड आबकारी कम्पनी लि०, पुगलूर शुगर फैक्ट्री, जिला तिरुचिरापल्ली
11. दि सालेम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, महानूर वाया करर, जिला सालेम
12. शक्ति शुगर लि०, शक्तिनगर, पो० आ० इरोडे, जिला कोयम्बतूर
13. अमरावती कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, कृष्णापुरम् ईस्ट, जिला कोयम्बतूर
14. दि नेशनल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, अलगाअलूर पो० आ०, जिला मयुराई
15. दि धर्मपुरी जिला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पालाकोडे, धर्मपुरी जिला
16. मसर्स तिरुपतूर शुगर लि०, तिरुपतूर, जिला नार्थ अरकोट
17. मसर्स वेल्लोर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, नम्बर डी-5, ग्राम, जिला नार्थ अरकोट (स्थित तिरुवलम, अमन्तल विलेज, गुडियाथम तालुक, जिला नार्थ अरकोट)
18. मसर्स तमिल नाडु शुगर कारपोरेशन लि०, बन्जाबूर, जिला थंजावूर
19. मसर्स उलन्दूरपेट कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पोस्ट वेरया सेबालई तालुक, उलन्दूरपेट, जिला साउथ अरकोट
20. दि वेराम्बूर शुगर मिल्स लि०, (पंडित जवाहर लाल नेहरू मिल्स), एराइयूर विलेज, वेराम्बूर तालुक, जिला त्रिची

पांडिचेरी

1. न्यू होरीजन शुगर मिल्स कं० लि०, सकरर (अरीकुर), पांडिचेरी

उड़ीसा

1. अस्का कोआपरेटिव शुगर इण्ड ट्रीज लि०, पो० आ० अस्का, जिला गंजम
2. दि बरगढ़ कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० आ० बरगढ़, जिला सम्बलपुर

असम

1. दि असम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० आ० बरमा बमुन्गांव, जिला सिवसागर
2. मसर्स असम इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि०, कन्नाथल रोड, गौहाटी-3 (स्थित चारगोला, जिला कचर)

नागालैण्ड

1. नागालैण्ड शहर मिल्स लि०, दोमापुर

पश्चिम बंगाल

1. मैमर्स ब्रह्मवपुर शहर मिल्स, ब्रह्मवपुर, जिला बीरभूम

केरल

1. मन्नम शहर मिल्स कोआपरेटिव लि०, नम्बर 4324-पंडालम पो० ब्रा०, जिला अन्नेप्पी
2. दि गोआपरेटिव शर्गर्ज लिमिटेड, चिन्नूर, पो० ब्रा० मेनोनपारा, जिला पालघाट

अनुसूची 6

(खंड 2 देखिए)

उन निर्वात कड़ाहू चीनी कारखानों की सूची जिनका निर्माण 1 अक्टूबर, 1955 से पूर्व किया गया है और जिनकी वैनिक गन्ना पीसने की अनुज्ञान क्षमता निम्नलिखित है, अर्थात् :—

- (i) 1250 टन से कम है ; या
- (ii) 1250 टन से कम है किन्तु जिनकी उदाहरीकृत अनुज्ञापन नीति के अधीन या अन्यथा विस्तारित क्षमता 1250 टन तक या उससे अधिक है ; या
- (iii) 1250 टन से कम है और जिन्होंने अतः पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में 1250 टन या उससे अधिक पेषण नहीं किया है ।

पंजाब

1. दि जगतजीत शहर मिल्स कं० लि०, फगवाड़ा, जिला कपूरथला

राजस्थान

1. दि मेवाड़ शहर मिल्स लि०, भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़
2. दि गंगानगर शहर मिल्स लि०, श्री गंगानगर पोस्ट आफिस, जिला श्री गंगानगर

पश्चिम उत्तर प्रदेश

1. दि यू० पी० स्टेट शहर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट मोहीउद्दीनपुर, पोस्ट आफिस मोहीउद्दीनपुर, जिला मेरठ
2. श्री जानकी शहर मिल्स एण्ड कम्पनी, डोईवाला, जिला देहरादून
3. दि यू० पी० स्टेट शहर कारपोरेशन लि०, यूनिट सिखौली टांडा, पोस्ट आफिस सिखौली टांडा, जिला मेरठ
4. दि जमबन्ध शहर मिल्स लि०, मेरठ सीटी, जिला मेरठ

मध्य उत्तर प्रदेश

1. शिव प्रसाद बनारसीदास शहर मिल्स, बिजनौर, जिला बिजनौर
2. एच० आर० शहर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, खरेली, जिला खरेली
3. रोसा शहर वर्क्स आफ करेव एण्ड कम्पनी लिमिटेड, रोजा, जिला शाहजहाँपुर
4. श्री मिक्सरिया बिसवान शहर फैक्ट्री प्राइवेट लि०, बिसवान, जिला सीतापुर

पूर्वी उत्तर प्रदेश

1. दि रतना शहर मिल्स कं० लि०, शाहगंज, जिला जौनपुर
2. दि यू० पी० स्टेट शहर कारपोरेशन लि०, यूनिट बाराबंकी, जिला बाराबंकी
3. दि बुद्धवाल शहर मिल्स कं० लि०, बुद्धवाल, जिला बाराबंकी
4. आर० बी० लक्ष्मणदास शहर एण्ड जनरल मिल्स प्रा० लि०, पोस्ट आफिस जरवल रोड, जिला बहराइन
5. दि सकसारिया शहर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट आफिस बनान, जिला गोंडा
6. दि बस्ती शहर मिल्स कं० लि०, पो० ब्रा०, बाल्टरगंज, जिला बस्ती
7. दि माधो महेश शहर मिल्स प्राइवेट लि०, पो० ब्रा० मुहंजरवा, जिला बस्ती
8. श्री धानग्व शहर मिल्स, पोस्ट आफिस खलीलाबाद, जिला बस्ती
9. दि यू० पी० स्टेट शहर कारपोरेशन लि०, पोस्ट आफिस पिपराबंख, जिला गोरखपुर
10. दि पंजाब शहर मिल्स कं० लि०, पो० ब्रा० बुधनी, जिला गोरखपुर
11. महाबीर शहर मिल्स प्रा० लि०, पो० ब्रा०, सिस्वाबोत्तार, जिला गोरखपुर
12. दि यू० पी० स्टेट शहर कारपोरेशन लि०, यूनिट खड्डा, पो० ब्रा० राजा बाजार खड्डा जिला देवरिया
13. लक्ष्मी बेबी शहर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, छितौनी पोस्ट आफिस, जिला देवरिया
14. दि ईश्वरी खेतान शहर मिल्स लिमिटेड, लक्ष्मीगंज पो० ब्रा०, जिला देवरिया
15. दि महेश्वरी खेतान शहर मिल्स प्रा० लि०, पो० ब्रा० रामाकोला, जिला देवरिया
16. कानपुर शहर वर्क्स लिमिटेड, काठकुईया, फैक्ट्री ब्रांच, पोस्ट आफिस काठकुईया, जिला देवरिया
17. श्री सीताराम शहर कं० लि०, पो० ब्रा० बैतालपुर, जिला देवरिया
18. कानपुर शहर वर्क्स लि०, गौरी फैक्ट्री ब्रांच पो० ब्रा० गौरी बाजार, जिला देवरिया
19. देवरिया शहर मिल्स लि०, देवरिया पो० ब्रा०, जिला देवरिया
20. यू० पी० स्टेट शहर कारपोरेशन लि०, यूनिट भटनी, पो० ब्रा० भटनी, जिला देवरिया
21. दि प्रतापपुर शहर मिल्स लि०, पो० ब्रा० प्रतापपुर, जिला देवरिया
22. दि गणेश शहर मिल्स, पो० ब्रा० आनन्दनगर, जिला गोरखपुर

उत्तरी बिहार

1. नार्थ बिहार शहर मिल्स लि०, बगाहा, पो० ब्रा० नारायपुर, जिला चम्पारन
2. चम्पारन शहर कं० लि०, बरहू फैक्ट्री ब्रांच, पो० ब्रा० बाराबकिया, जिला चम्पारन
3. दि सुधीली शहर वर्क्स प्रा० लि०, पो० ब्रा० सुधीली, जिला चम्पारन
4. सीतमपुर शहर वर्क्स लि०, पो० ब्रा० गरील, जिला मुजफ्फरपुर
5. तिरहुत कोआपरेटिव शहर फैक्ट्री लि०, रयाम फैक्ट्री पो० ब्रा०, जिला दरभंगा
6. सकरी शहर वर्क्स आफ दी दरभंगा शहर कं० लि०, पो० ब्रा० कसरी, जिला दरभंगा

7. समस्तीपुर सेन्ट्रल शुगर कं. लि., समस्तीपुर फैक्ट्री ब्रांच, पो. ० आ. ० समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर
8. सासा मूसा शुगर वर्क्स प्रा. लि., पो. ० आ. ० सासामूसा, जिला सारन
9. भारत शुगर मिल्स लि., पो. ० आ. ० मिर्जावालाये, जिला सारन
10. कामपुर शुगर वर्क्स लि., मारहीराह फैक्ट्री ब्रांच, पो. ० आ. ० मारहीराह, जिला सारन
11. न्यू सावन शुगर मिल्स, पो. ० आ. ० सीवान, जिला सीवान
12. श्री कृष्ण ज्ञानोदय शुगर लि., पो. ० आ. ० सीवान, जिला सीवान
13. वि मोतीपुर शुगर फैक्ट्री प्राइवेट लि., पो. ० आ. ० मोतीपुर, जिला मुजफ्फरनगर
14. न्यू स्वदेशी शुगर मिल्स लि., पो. ० आ. ० नरकटियागंज, जिला बमपारन
15. वि बिहार शुगर वर्क्स, पंचरुखी, जिला सारन

बिहार

1. गुराऊ बीमी मिल्स, पो. ० आ. ० गुराऊ मिल्स, जिला गया
2. मैसर्स मोहिनी शुगर मिल्स लि., बरसासीगंज, जिला गया
3. साउथ बिहार शुगर मिल्स लि., पो. ० आ. ० भीटा, जिला पटना

मध्य प्रदेश

1. वि ग्वालियर शुगर कं. लि., पो. ० आ. ० डाबरा, जिला ग्वालियर
2. वि श्रीवाजी रावरी कं. लि., पो. ० आ. ० दलौदा, जिला मन्डसौर
3. ज्योरा शुगर मिल्स प्रा. लि., पो. ० आ. ० ज्योरा, जिला रातलाम
4. सेठ गोविन्दराम शुगर मिल्स, पो. ० आ. ० मेहिवपुर रोड, उज्जैन

महाराष्ट्र

1. श्री चंगदेव शुगर मिल्स लि., पो. ० आ. ० चवेलनगर, जिला अहमदनगर
2. वि ससबांड माली शुगर फैक्ट्री लि., पो. ० आ. ० मालीनगर, जिला सोलापुर
3. वि रावलगांव शुगर फार्म लि., पो. ० आ. ० रावलगांव, जिला नासिक
4. वि गोदावरी शुगर मिल्स लि., पो. ० आ. ० मकरवाडी, जिला अहमदनगर

कर्नाटक

1. वि सालारजंग शुगर मिल्स (ए डिबीजन आफ इण्डिया शुगर एण्ड रिफाईनिंग लि.), पो. ० आ. ० मुनीराबाद, जिला रायचूर

काश्मीर प्रदेश

1. श्री रामा शुगर एण्ड इण्डस्ट्रिज लि., सीतानगर, जिला श्रीकाकुलम
2. श्री रामा शुगर एण्ड इण्डस्ट्रिज लि., पबोबिली, जिला श्रीकाकुलम
3. अनकापल्ले कोम्पारेटिव एग््रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रीयल सोसायटी लि., पो. ० आ. ० अनकापल्ले, जिला निशाखापत्तनम
4. वि किरलामपुंडी शुगर मिल्स लि., पिचापुर, जिला पूर्वी गोदावरी

तमिल नाडु

1. मयुरा शुगर लि., पांडियाराजापुरम, जिला मयुराई
2. मैसर्स बलार शुगर प्रा. लि., पो. ० आ. ० मेलपट्टी, जिला नायारकाट

उड़ीसा

1. जयपुर शुगर कं. लि., पो. ० आ. ० रायगाड़ा, जिला कोरापुट

पश्चिमी बंगाल

1. वि रामनगर केन एण्ड शुगर कम्पनी लि., पो. ० आ. ० प्लामी, जिला नादिया

केरल

1. वि ट्रावनकोर शुगर एण्ड कैमिकल्स लि., पम्बा रीवर फैक्ट्री, तिरुवल्लुर जिला तिरुवल्लुर

[सं. 2-5/81-एस०पी०वाई(डी-2)]

सी० एन्० राघवन,

संयुक्त सचिव

चीनी

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 10th November, 1981

G.S.R. 586(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) This Order may be called the Sugar (Price Determination for 1981-82 Production) Order, 1981.

(2) It shall come into force at once.

2. Price of sugar produced in 1981-82 season :—The Central Government hereby determines the prices specified in columns 2 to 7 of Schedules I, II, III and IV hereto annexed, as the prices payable for the Indian Sugar Standard (ISS) grades of sugar mentioned therein, packed in 'A' Twill new gunny bags and produced in 1981-82 by all vacuum pan sugar factories situated in the areas specified in the corresponding entry in column 1 of the said Schedules, and specified in Schedules V and VI hereto annexed, and required to be supplied to the persons, organisations or State Governments specified in the Order made by the Central Government under sub-clause (1) of clause 2 of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979, for delivery at buyer's option into (i) railway wagons or (ii) the buyer's carts, lorries or other means of transport at the factory gate/factory godown.

Provided that where a sugar factory is situated at a distance exceeding five kilometers from the nearest railway station or an out agency of the railway or from the godown outside the factory not connected by rail, the producer may charge additional three paise per quintal of sugar per kilometer beyond five kilometers of the distance between the sugar factory and such railway station or out agency of the railway, in case of despatches by rail or between the sugar factory and such godown in case of delivery ex-godowns.

Explanation :—In this Order :—

- (a) the prices specified in columns 2 to 7 of Schedules I, II, III and IV aforesaid do not include the duty of excise, additional duty of excise in lieu of sales tax, and the special duty of excise, which the producer can recover, at

- the rate in force at the relevant time, in addition to the prices as determined by this Order.
- (b) the prices specified in columns 2 to 7 of Schedules I and III aforesaid include transport from factory godowns and loading, at buyer's option, into railway wagons at the railway station or siding generally used by the producer and including siding or wagon hauling, dunnage and other incidentals;
- (c) the prices specified in columns 2 to 7 of Schedules II and
- IV aforesaid include transport from factory godown loading of sugar, at buyers' option, into carts, lorries or other means of transport at the factory gate/factory godown and include all other incidentals;
- (d) the Indian Sugar Standard grades (ISS grades) means the grades represented by the Standard sealed samples of sugar in bottles issued by the Director, National Sugar Institute, Kanpur, conforming to the standards A-30, B-30, C-30, D-30, E-30 and A-29, B-29, C-29, D-29 and E-29 prescribed by the Indian Standards Institution.

SCHEDULE-I

(See clause 2)

Prices for delivery into railway wagons (rupees per quintal) Gradewise for ISS Grades (excluding excise duty) in respect of factories specified in Schedule-V

Zone	Indian Sugar Standards (ISS) Grades of Sugar					
	A-30 B-30 C-30	D-30	E-30	A-29 B-29 C-29	D-29	E-29
1	2	3	4	5	6	7
Punjab	304.67	303.52	302.97	303.67	302.67	302.17
Haryana	318.00	316.85	316.30	317.00	316.00	315.50
Rajasthan	333.41	332.26	331.71	332.41	331.41	330.91
West Uttar Pradesh	277.15	276.00	275.45	276.15	275.15	274.65
Central Uttar Pradesh	291.11	289.96	289.41	290.11	289.11	288.61
East Uttar Pradesh	313.96	312.81	312.26	312.96	311.96	311.46
North Bihar	316.58	315.43	314.88	315.58	314.58	314.08
Gujarat	284.90	283.75	283.20	283.90	282.90	282.40
Madhya Pradesh	364.91	363.76	363.21	363.91	362.91	362.41
Maharashtra	282.94	281.79	281.24	281.94	280.94	280.44
Karnataka	282.57	281.42	280.87	281.57	280.57	280.07
Andhra Pradesh	295.00	293.85	293.30	294.00	293.00	292.50
Tamil Nadu and Pondicherry	304.05	302.90	302.35	303.05	302.05	301.55
Assam, Orissa, West Bengal and Nagaland	314.27	313.12	312.57	313.27	312.27	311.77
Kerala & Goa	301.29	300.14	299.59	300.29	299.29	298.79

SCHEDULE-II

Prices for delivery in buyer's carts, lorries or other means of transport at the factory gate/factory godown (rupees per quintal) Gradewise for ISS Grades (excluding excise duty) in respect of factories specified in Schedule V

Zone	Indian Sugar Standards (ISS) Grades of Sugar					
	A-30 B-30 C-30	D-30	E-30	A-29 B-29 C-29	D-29	E-29
1	2	3	4	5	6	7
Punjab	304.29	303.14	302.59	303.29	302.29	301.79
Haryana	317.28	316.13	315.58	316.28	315.28	314.78
Rajasthan	332.87	331.72	331.17	331.87	330.87	330.37
West Uttar Pradesh	277.05	275.90	275.35	276.05	275.05	274.55
Central Uttar Pradesh	290.80	289.65	289.10	289.80	288.80	288.30
East Uttar Pradesh	313.69	312.54	311.99	312.69	311.69	311.19
North Bihar	316.27	315.12	314.57	315.27	314.27	313.77
Gujarat	284.62	283.47	282.92	283.62	282.62	282.12
Madhya Pradesh	363.35	362.20	361.65	362.35	361.35	360.85
Maharashtra	282.26	281.11	280.56	281.26	280.26	279.76
Karnataka	282.46	281.32	280.77	281.47	280.47	279.97
Andhra Pradesh	294.51	293.36	292.81	293.51	292.51	292.01
Tamil Nadu and Pondicherry	303.83	302.68	302.13	302.83	301.83	301.33
Assam, Orissa, West Bengal & Nagaland	313.06	311.91	311.36	312.06	311.06	310.56
Kerala & Goa	301.05	299.90	299.35	300.05	299.05	298.55

SCHEDULE-III

Prices for Delivery into Railway Wagons (rupees per quintal) Gradewise for ISS Grades (excluding Excise Duty) in respect of factories specified in Schedule VI

Zone	Indian Sugar Standards (ISS) Grades of Sugar					
	A-30	D-30	E-30	A-29	D-29	E-29
	B-30			B-29		
	C-30			C-29		
1	2	3	4	5	6	7
Punjab	330.67	329.52	328.97	329.67	328.67	328.17
Rajasthan	359.41	358.26	357.71	358.41	357.41	356.91
West Uttar Pradesh	303.15	302.00	301.45	302.15	301.15	300.65
Central Uttar Pradesh	317.11	315.96	315.41	316.11	315.11	314.61
East Uttar Pradesh	339.96	338.81	338.26	338.96	337.96	337.46
North Bihar	342.58	341.43	340.88	341.58	340.58	340.08
South Bihar	390.61	389.46	388.91	389.61	388.61	388.11
Madhya Pradesh	390.91	389.76	389.21	389.91	388.91	388.41
Maharashtra	308.94	307.79	307.24	307.94	306.94	306.44
Karnataka	308.57	307.42	306.87	307.57	306.57	306.07
Andhra Pradesh	321.00	319.85	319.30	320.00	319.00	318.50
Tamil Nadu	330.05	328.90	328.35	329.05	328.05	327.55
Orissa & West Bengal	340.27	339.12	338.57	339.27	338.27	337.77
Kerala	327.29	326.14	325.59	326.29	325.29	324.79

SCHEDULE-IV

(See Clause 2)

Prices for delivery into buyer's carts, lorries or other means of transport at the factory gate/factory godown (rupees per quintal) Gradewise for ISS Grades (excluding Excise Duty) in respect of factories specified in Schedule VI

Zone	Indian Sugar Standards (ISS) Grades of Sugar					
	A-30	D-30	E-30	A-29	D-29	E-29
	B-30			B-29		
	C-30			C-29		
1	2	3	4	5	6	7
Punjab	330.29	329.14	328.59	329.29	328.29	327.79
Rajasthan	358.87	357.72	357.17	357.87	356.87	356.37
West Uttar Pradesh	303.05	301.90	301.35	302.05	301.05	300.55
Central Uttar Pradesh	316.80	315.65	315.10	315.80	314.80	314.30
East Uttar Pradesh	339.69	338.54	337.99	338.69	337.69	337.19
North Bihar	342.27	341.12	340.57	341.27	340.27	339.77
South Bihar	390.21	389.06	388.51	389.21	388.21	387.71
Madhya Pradesh	389.35	388.20	387.65	388.35	387.35	386.85
Maharashtra	308.26	307.11	306.56	307.26	306.26	305.76
Karnataka	308.47	307.32	306.77	307.47	306.47	305.97
Andhra Pradesh	320.51	319.36	318.81	319.51	318.51	318.01
Tamil Nadu	329.83	328.68	328.13	328.83	327.83	327.33
Orissa & West Bengal	339.06	337.91	337.36	338.06	337.06	336.56
Kerala	327.05	325.90	325.35	326.05	325.05	324.55

SCHEDULE-V

(See Clause 2)

(c) less than 1250 tonnes, but have crushed upto 1250 tonnes or more during each of the preceding five years.

List of Vacuum pan sugar factories erected (either with new or old machinery) :—

- (i) On or after the 1st day of October, 1955 ; or
- (ii) prior to the 1st day of October, 1955, and have a licensed daily cane crushing capacity of -
- (a) 1250 tonnes or more ; or
- (b) less than 1250 tonnes, but have expanded the capacity upto 1250 tonnes or more either under the Liberalised Licencing Policy or otherwise ; or

PUNJAB

1. The Morinda Cooperative Sugar Mills Limited, Morinda, District Rupar.
2. The Malwa Sugar Mills Company Limited, Dhuri, Distt. Sangrur.
3. The Janta Cooperative Sugar Mills Limited, Bhogpur P.O., District Jullundur.
4. The Doaba Cooperative Sugar Mills Limited, Nawanshahr, District Jullundur.

5. The Batala Cooperative Sugar Mills Limited, Batala, District Gurdaspur.
6. Punjab Khand Udyog Limited, P.O.Box 26, Gurdaspur.
7. Punjab Khand Udyog Limited, Zira, District Ferozpur.

HARYANA

1. The Saraswati Sugar Mills, P.O. Yamunanagar, District Ambala.
2. The Haryana Cooperative Sugar Mills Limited, Rohtak P.O., District Rohtak.
3. The Panipat Cooperative Sugar Mills Limited Panipat P.O., District Karnal.
4. M/s. Karnal Cooperative Sugar Mills Limited P.O. Karnal, District Karnal.
5. M/s. Sonapat Cooperative Sugar Mills Limited, P.O. Sonapat, District Sonapat.

RAJASTHAN

1. Sri Keshoripatan Sahakari Sugar Mills Limited, P.O. Keshoripatan, District Bundi.

WEST UTTAR PRADESH

1. Daurala Sugar Works, Daurala, District Meerut.
2. Mawana Sugar Works, Mawana, District Meerut.
3. The Bagpat Cooperative Sugar Mills Limited, P.O. Bagpat, District Meerut.
4. Modi Industries Limited, Modinagar, District Meerut.
5. M/s. Ramala Sahakari Chini Mills Limited, P.O. Ramala, District Meerut.
6. The Simbhaoli Sugar Mills Private Limited, P.O. Simbhaoli, District Meerut.
7. The Triveni Engineering Works Limited, Sugar Unit, The Jyoti Sagar Mills, Khatauli, District Muzaffarnagar.
8. Swarup Vegetable Products Industries Limited, Mansurpur, District Muzaffarnagar.
9. The Amritsar Sugar Mills Company Limited, Rohanakalan, P.O. Rohana Mills, District Muzaffarnagar.
10. The Upper Doab Sugar Mills Limited, Shamli, District Muzaffarnagar.
11. The Pannijee Sugar and General Mills Company, Panninagar, District Bulandshahr.
12. Gangeshwar Limited, Deoband, District Saharanpur.
13. The Lord Krishna Sugar Mills Limited, Saharanpur, District Saharanpur.
14. Kisan Cooperative Sugar Factory Limited, P.O. Sarsawa, District Saharanpur.
15. Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Company Limited, Lhaksar, District Saharanpur.
16. The Mahalakshmi Sugar Mills Company Limited, Iqbalpur P.O., District Saharanpur.
17. The Kisan Sahakari Chini Mills Limited, Nanautia, District Saharanpur.
18. Kisan Sahkari Chini Mills Limited, Annapshahr, P.O. Jayangirabad, District Bulandshahr.

CENTRAL UTTAR PRADESH

1. Upper Ganges Sugar Mills Limited, Seohara, District Bijnor.

2. Dhampur Sugar Mills Limited, P.O. Dhampur, District Bijnor.
3. The Ajudhia Sugar Mills, P.O. Raja-ka-Sahaspur District Moradabad.
4. Kundan sugar Mills Private Limited, Amroha, District Moradabad.
5. Raza Suland sugar Company Limited, P.O. Rampur, District Rampur.
6. The Kesar Sugar Works Limited, Baheri, District Bareilly.
7. L.R. Sugar Factories Limited, Pilibhit, District Pilibhit.
8. The Kisan Cooperative Sugar Factory Limited, Majhola, District Pilibhit.
9. L.H. Sugar Factories and Oil Mills Private Limited, Kashipur, District Nainital.
10. The Bazpur Cooperative Sugar Factory Limited, Bazpur District Nainital.
11. The Kichha Sugar Company Limited, Kichha, District Nainital.
12. The Neoli Sugar Factory, Manpurnagar, P.O. Neoli, District Etah.
13. The Oudh Sugar Mills Limited, Hargaon, District Sitapur.
14. The Lakshmiji Sugar Mills Private Limited, Mgholi, District Sitapur.
15. M/s. Kisan Sahakari Chini Mills Limited, P.O. Nadehi, District Nainital.
16. The Hindustan Sugar Mills Limited, Golagokarannath, District Kheri.
17. The Gobind Sugar Mills Limited, P.O. Aira Estate, District Kheri.
18. Sharda Sugar & Industries Limited, P.O. Box No. 30, Palia, District Kheri.
19. The Lakshmi Sugar and Oil Mills Limited, Hardoi, District Hardoi.
20. The Kisan Sahkari Chini Mills Limited, Kamganj, District Farrukhabad.
21. M/s. Sarjoo Sahakari Chini Mills Limited, Belrayan, District Kheri.
22. Kisan Sahkari Chini Mills Limited, Setha (Harduaganj) P.O. Setha, District Aligarh.
23. M/s. Chhata Sugar Company Limited, P.O. Chhata, District Mathura.
24. M/s. Chandpur Sugar Company Limited, P.O. Chandpur, District Bijnor.
25. M/s. Rudra Bilas Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., P.O. Bilaspur, District Rampur.
26. M/s. Bisalpur Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., P.O. Bisalpur, Distt. Pilibhit.
27. M/s. Experimental Sugar Factory (National Sugar Institute) P.O. Kalyanpur, Kanpur.
28. M/s. Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Budaun P.O., Distt. Budaun.

EAST UTTAR PRADESH

1. K.M. Sugar Mills Private Limited, Motinagar Sugar Mills, P.O. Motinagar, Distt. Faizabad.
2. Balrampur Sugar Co. Ltd., Balrampur Factory Branch, Balrampur, Distt. Gonda.

3. Tulsipur Sugar Company Ltd., Tulsipur Factory Branch, P.O. Tulsipur, District Gonda.
4. The Nawabganj Sugar Mills Company Limited, P.O. Sugar Factory, Nawabganj, Distt. Gonda.
5. The Basti Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Basti, Distt. Basti.
6. Saraya Sugar Mills Pvt. Ltd., Sardarnagar P.O., Distt. Gorakhpur.
7. The Shankar Agro Industries Limited, Captalnganj P.O., Distt. Deoria.
8. Gangeshwar Limited, Ramkola, Distt. Deoria.
9. Cawnpur Sugar Works Ltd., Padrauna Factory Branch, P.O. Padrauna, Distt. Deoria.
10. The United Provinces Sugar Co. Ltd., P.O. Seorahi, Distt. Deoria.
11. The Kashi Sahakari Chini Mills Ltd., Aurai, Distt. Varanasi.
12. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Rasra, Distt. Ballia.
13. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Azamgarh, Distt. Azamgarh.
14. M/s. Nandganj-Sihori Sugar Co. Ltd., Village Sihori, P.O. Nandganj, Tah. Saidpur, Distt. Ghazipur.
15. M/s. Nandganj-Sihori Sugar Co. Ltd., Daryapur Unit, P.O. Daryapur, Distt. Rae-Bareilly.

NORTH BIHAR

1. Harinagar Sugar Mills Limited, P.O. Harinagar, Distt. Champaran.
2. Shree Krishna Gyanoday Sugar Ltd., P.O. Lauriya, Distt. Champaran.
3. Motilal Padampat Udyog Ltd. (Sugar Mills Branch) Majhauria, Distt. Champaran.
4. Gobind Sugar Mills Ltd., Lessee of Shri Hanuman Sugar and Industries Ltd., P.O. Motihari, Distt. Champaran.
5. Champaran Sugar Co. Ltd., Chanpatia Factory Branch, P.O. Chanpatia, District Champaran.
6. Lohat Sugar Works of the Darbhanga Sugar Co. Ltd., P.O. Lohat, District Darbhanga.
7. New India Sugar Mills Ltd., Hassanpur Road, P.O. Hassanpur Sugar Mills, District Darbhanga.
8. Shri Krishna Gyanoday Sugar Limited, Hathua, P.O. Mirganj, District Saran.
9. Burnea Cooperative Sugar Factory Limited, Banmankhi, District Purnea.
10. Belsund Sugar Co. Ltd., P.O. Righa, District Muzaffarpur.
11. The Vishnu Sugar Mills Ltd., P.O. Vishnu Sugar Mills, Gopalganj, District Saran.

GUJARAT

1. Shri Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, Sardar Bag, Bardoli, District Surat.
2. Shri Madhi Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Limited Madhi, District Surat.
3. Shri Chalthan Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Limited, P.O. Chalthan (Western Railway) District Surat.

4. The Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, Gandevi, Via Billimora, District Bulsar.
5. Shree Vileshwar Khand Udyog Khedut Sahakari Mandli Limited, P.O. Kodinar, District Amreli.
6. Shri Una Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, P.O. Una (Serath), District Junagadh.
7. M/s. Shree Sayan Vibhag Sahakari Khand Udyog Sahakari Mandli Limited, P.O. Sayan, Taluka Olpad, District Surat.
8. M/s. Shree Maroli Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Limited, P.O. Maroli, District Valsad.
9. M/s. Shlv Valsad Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, Parmora Pardi, District Valsad.
10. M/s. Shree Talala Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, P.O. Talala (Giri), District Junagadh.
11. M/s. Shri Sardar Vallabhbhai Patel Khand Udyog Co-operative Society Limited, Jamnavad Road, Dhoraji, District Rajkot.
12. Shree Mahuva Pradesh Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Zervavra, District Surat.
13. M/s. Amreli Sahakari Krishi Khand Udyog Limited, Amreli.
14. Charotar Sahakari Khand Udyog Ltd., Palaj, Taluka Petlaj, District Kaira.

MADHYA PARDESH

1. The Bhopal Sugar Industries Ltd., Sehore, District Sehore.
2. The Morena Mandal Shakari Shakkar Karkhana Ltd., Kailaras, District Morena.
3. The Malwa Sahakari Shakkar Karkhana Limited, Barlai (Kshipra), District Indore.

MAHARASHTRA

1. Girna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Malegaon, District Nasik.
2. Niphad Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Bhauseheb-nagar, District Nasik.
3. The Sanjivani (Takli) Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Koparagon, District Ahmednagar.
4. Koparagon Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Kolpe-wadi, District Ahmednagar.
5. The Godavari Sugar Mills Ltd., P.O. Lakshmiwadi, District Ahmednagar.
6. Shri Ganesh Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ganesha-nagar, P.O. Rajangaon Khurd, District Ahmednagar.
7. Ashok Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ashoknagar, P.O. Shrirampur, District Ahmednagar.
8. Belapur Sugar and Allied Industries Ltd., Harigaon, District Ahmednagar.
9. The Maharashtra Sugar Mills Ltd., P.O. Tilaknagar, District Ahmednagar.
10. The Pravara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Pravara-nagar, District Ahmednagar.
11. The Rahuri Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shrishivaji-nagar, Rahuri Factory Branch P.O. District Ahmednagar.
12. The Shrigonda Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shri-gonda, P.O. Belvandi, District Ahmednagar.

13. Sangamner Bhag Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Sangamner, District Ahmednagar.
14. Shridhyaneshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhandra BK Tal. Newasa, District Ahmednagar.
15. Gangapur Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Raghunathnagar, Taluka Gangapur, District Aurangabad.
16. Shri Sant Eknath Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Wahegaon, Taluk Paithan, District Aurangabad.
17. M/s. Sidheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Silod, District Aurangabad.
18. Kannad Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kannad, District Aurangabad.
19. M/s. Vineyak Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Parsoda, Tal. Vijapur, District Aurangabad.
20. Bhima Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Patas, Taluka Daund, District Pune.
21. Shri Someshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Nira, District Poona.
22. The Malegaon Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Malegaon, B.K. Taluka Baramati, District Poona.
23. Shri Chhatrapati Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Bhavaninagar, Taluka Indapur, District Poona.
24. Yeshwant Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Theur, P.O. Theur, Taluka Haveli, District Poona.
25. Walchandnagar Industries Limited, P.O. Walchandnagar, District Poona.
26. Yeshwant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Akluj, District Sholapur.
27. Brima Sugar Syndicate Limited, P.O. Shreepur, District Sholapur.
28. Shree Shankar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Sadashivnagar Tal. Malashiras, District Sholapur.
29. Shree Sidheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kumathe, Taluka North Sholapur, District Sholapur.
30. Shri Vithal Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Gurshala, Taluka Pandharpur, District Sholapur.
31. The Phaltan Sugar Works Ltd., P.O. Sakharwadi, District Satara.
32. Shriram Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Phaltan, District Satara.
33. Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Rothare Audruk, P.O. Shivanagar, District Satara.
34. Satara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhuinj, District Satara.
35. Balasaheb Desai Sahakari Karkhana Ltd., Marali, Tal. Patan, District Satara.
36. Sahyadri Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Yeshwant Nagar, Tal. Kard, District Satara.
37. Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Sangli, District Sangli.
38. The Walwa Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Sakharale Islampur Post Office, District Sangli.
39. Vishwas Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Yeshwantnagar, Taluka Shirala, District Sangli.
40. Shree, Warana Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. P.O. Warananagar, District Kolhapur.
41. The Kolhapur Sugar Mills Ltd., Kasaba Ravada, P.O. Kolhapur, District Kolhapur.
42. Shree Panchganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Ichalkaranji, District Kolhapur.
43. The Bhogawati Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Shanunagar (Parite), District Kolhapur.
44. Kumbhi Kesari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ku-ditre, P. O. Koparde, Taluka Karveer, District Kolhapur.
45. Shri Dudhganga Vedganga Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Bidri, Post Office Mouninagar, Taluka Kagal, District Kolhapur.
46. Shree Datta Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Asurle, Tehsil Panhela, District Kolhapur.
47. Shree Datta Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shirol, Taluka Shirol, Dist. Kolhapur.
48. Tarna Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Dhoki, District Osmanabad.
49. M/s. Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Killari, District Osmanabad.
50. Shri Satpuda Tapi Parisar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Lonkhoda, Taluka Shahada, District Dhulia.
51. Shri Panzarakan Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhadna, Taluka Sakri, District Dhulia.
52. Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pusad, District Yeotmal.
53. Kalambar Vibhag Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kalambar, Taluka Kandhar District Nanded.
54. Marathawade Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Post Office Dongarkade, Taluk Kalamnuri, District Parbhani.
55. Ambajogai Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ambajogai, District Bhir.
56. Madhukar Sahakari Sakhar Karkhana, Maryadit, Nhevi Marg, Faizpur, District Jalgaon.
57. M/s. Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kasoda, Taluka Erandole, District Jalgaon.
58. M/s. Jai Bhavani Co-operative Sugar Factory Ltd., P.O. Georai, District Bhir.
59. M/s. Daulet Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Yeshwantnagar, Taluka Chandgad, District Kolhapur.
60. Belganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Bhoras, Taluka Chalisgaon, District Jalgaon.
61. M/s. Shri Vridheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kasaba Pimpalgaon, Taluka Pathardi, District Ahmednagar.
62. M/s. Shri Jagdamba Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Rashim Tehsil Karjat, District Ahmednagar.
63. M/s. Jijamata Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Dasarbid, Tq. Mehkar, District Buldana.
64. M/s. Karmaveer Kakasaheb Wagh Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kakasaheb Nagar, Post Ranwad, Tal. Niphad, District Nasik.
65. M/s. Kadwa Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Matere-wadi, Tal. Dindori, District Nasik.
66. M/s. Nasik Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Palse, District Nasik.
67. M/s. Mula Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Sonai, Tal. Newasa, District Ahmednagar.

66. M/s. Kada Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Kada, Tal. Ashti, District Bhir.
69. M/s. Gadhinglaj Talukas Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Gadninglaj, District Kolhapur.
70. Bhogawati Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Erl-Vairag, P.O. Virag, District Sholapur.
71. Shree Chatrapati Shahu Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kagal, District Kolhapur.
72. Godawari Dudhana Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Deonandra, Post Office Pathari, District Parbhani.
73. M/s. Bhima Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Takali Shikander, Tal. Mohol, District Sholapur.
74. M/s. Godavari Manar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Shankarnagar, P.O. Ramtirth, Tal. Biloli, District Nanded.
75. M/s. Purna Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Basmethnagar, District Parbhani.

GOA

1. Sanjivani Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Usgaon, Tisk, Goa.

KARNATAKA

1. The Ugar Sugar Works Limited, P.O. Ugar Khurd, District Belgaum.
2. Miranyakeshi Sahakari Sakhar Karkhana, Niyamit, P.O. Sankeshwar, District Belgaum.
3. Shri Malaparbhia Cooperative Sugar Factory Ltd., M.K. Hubli, District Belgaum.
4. M/s. Shree Doodhagange Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Niyamit, Chikodi, District Belgaum.
5. The Ghataprabha Sahakare Sakkare Karkhana Niyamit, Gokok, District Belgaum.
6. The India Sugars and Refineries Ltd., P.O. Ospet, District Ballary.
7. The Kampli Cooperative Sugar Factory Ltd., P.O. Kampli, District Bellary.
8. Kothari Sugars & Chemicals Ltd., P.O. Siruguppa, District Bellary.
9. Shri Mukesh Textile Mills Pvt. Ltd., (Thungabhadra Sugar Works) P.O. Shlmoga, District Shlmoga.
10. Pandavapura Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Pandavapura, District Mandya.
11. The Mysore Sugar Company Ltd., P.O. Mandya, District Mandya.
12. Chamundeshwari Sugar Ltd., Kalamunddana Daddi, District Mandya.
13. Gauribidanur Sahakari Sakhare Karkhana Ltd., Gauribidanur P.O., District Kolar.
14. Sidar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bidar, District Bidar.
15. Vanivilasa Cooperative Sugar Factory Ltd., Firiur, Chitra durga District.
16. Davangere Sugar Co. Ltd., Kukkarada, Devangere Taluk, District Chitradurga.
17. Somaiya Sugar Works, Semmerwadi Vii Mahalingpur, District Bijapur.
18. Sri Mahadeswara Sahakari Sakhare Karkhana Ltd., Kollegal, District Mysore.
19. Sri Sreerama Sahakara Sakkare Karkhana Ltd., Chunchanakatte, K.R. Nagar Taluk, District Mysore.
20. Gangawati Sugars Ltd., Srlramnagar Post, District Raichur.
21. Raibag Sahakari Sakhare Karkhana Niyamit, P.O. Budlhal, Taluk Raibag, District Belgaum.
22. M/s. Bhadra Sahakari Sakhare Karkhana Niyamit, Doddabathi, Davangere Tq., District Chitradurga.

ANDHRA PRADESH

1. Amadalavalase Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., P.O. Amadalavalasa, District Srikakulam.
2. The Etikoppaka Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., P.O. Etikoppaka, District Visakhapatnam.
3. The Chodavaram Cooperative Sugars Ltd., P.O. Govada, District Visakhapatnam.
4. The Thandava Cooperative Sugars Ltd., P.O. Payakaraopeta, District East Godavari.
5. The Deccan Sugar and Abkhari Co. Ltd., P.O. Smalkot, District East Godavari.
6. Sri Sarvaraya Sugars Ltd., Chelluru, District East Godavari.
7. V.V.S. Sugars, P.O. Chegallu, District East Godavari.
8. The Andhra Sugars Ltd., P.O. Tanuku, District West Godavari.
9. The Palakol Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., P.O. Palakol, District West Godavari.
10. The West Godavari Cooperative Sugars Ltd., Bhimadole, District West Godavari.
11. Challapalli Sugar Ltd., P.O. Challapalli, District Krishna.
12. The K.C.P. Ltd., Vuyyuru, District Krishna.
13. The Nizam Sugar Factory Ltd., Shakarnagar, District Nizamabad.
14. The Nazamabad Cooperative Sugar Factory Ltd., P.O. Nizamabad, District Nizamabad.
15. The Chittoor Cooperative Sugars Ltd., P.O. Toavatapalle, District Chittoor.
16. The Nizam Sugar Factory, Zahirabad, P.O. Didgi, District Medak.
17. M/s. Vijayarama Gajapati Agricultural and Industrial Society Ltd., P.O. Bheemasingi, District Visakhapatnam.
18. M/s. Cuddapah Cooperative Sugar Factory Ltd., C/o Ramesh Talkies, Cuddapah (Location Near Chennur, District Cuddapah).
19. M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., P.O. Miryalguda, District Nalgonda.
20. M/s. Kovur Cooperative Sugar Factory Ltd., Pothireddypalam P.O., Kovur Taluk, District Nellore.
21. M/s. Sri Venkateswara Cooperative Sugar Factory Ltd., (Tirupati) P.O. Gazulamandam, District Chittoor.
22. M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., Near Parigi, P.O. Hindupur, District Anantapur.
23. M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., No. VI, Motapalli, District Karimnagar.

24. The Nandyal Cooperative Sugars Ltd., P.O. Pannapuram, Nandyal-518502, District Kurnool.

TAMILNADU

1. The Ambur Cooperative Sugar Mills Ltd., Vedapudupet, P.O. Ambur, District North Arcot.
2. Madurantakam Cooperative Sugar Mills Ltd., Padalam, District Chingleput.
3. E.I.D. Parry Ltd., Nellikuppam, District South Arcot.
4. South India Steel and Sugars Ltd., Mundiampakkam, Taluka Villupuram, District South Arcot.
5. Aruna Sugars Ltd., Pannadam, District South Arcot.
6. The Kallakurichi Cooperative Sugar Mills Ltd., District Moongilthuraipattu (South Arcot).
7. Thiru Arooran Sugars Ltd., P.O. Vadapathimangalam, District Tanjore.
8. Kothari Sugars and Chemicals Ltd., Lalgudi, District Tiruchirappalli.
9. Cauvery Sugars and Chemicals Ltd., Cauvery Factory PO Pattaivayalai, Distt. Tiruchirappalli.
10. The Deccan Sugar and Abkari Company Ltd., Pugalur Sugar Factory, District Tiruchirappalli.
11. The Selom Cooperative Sugar Mills Ltd., Mohanur via Karur, District Salem.
12. Sakthi Sugars Ltd., Sakthinagar, P. O. Erode, District Coimbatore.
13. Amaravathi Cooperative Sugar Mills Ltd., Krishnapuram East, District Coimbatore.
14. The National Cooperative Sugar Mills Ltd., Alanganallur P.O., District Madurai.
15. The Dharamapuri District Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. code, Dharamapuri District.
16. M/s. Tirupattur Sugars Ltd., Tirupattur, District North Arcot.
17. M/s. Vellore Coop. Sugar Mills Ltd., No. D-5, Village, District North Arcot (Location Thiruvalam, Ammuntilli Village, Gudiyatham Taluk, District North Arcot).
18. M/s. Tamil Nadu Sugar Corporation Ltd., Thanjavur, District Thanjavur.
19. M/s. Ulundurpet Cooperative Sugar Mills Ltd., Post Peryasevalai, Tal. Ulundurpet, District South Arcot.
20. The Perambalur Sugar Mills Ltd., (Pandit Jawaharlal Nehru Sugar Mills), Erailur Village, Perambalur Taluk, District Trichy.

PONDICHERY

New Horizon Sugar Co. Ltd., Sacur (Ariour) Pondicherry.

ORISSA

1. Aska Cooperative Sugar Industries Ltd., P.O. Aska, Distt. Ganjam.
2. The Bargarh Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Bargarh, Distt. Sambalpur.

ASSAM

1. The Assam Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Baru Bamungaon, Distt. Sibsagar.
2. M/s. Assam Industrial Development Corporation Ltd., Kannachal Road, Gauhati-3 (Location Chargola, Distt. Cachar).

NAGALAND

Nagaland Sugar Mills Ltd., Dimapur.

WEST BENGAL

1. M/s. Ahmedpur Sugar Mills, Ahmedpur, District Birbhum.

KERALA

1. Mannam Sugar Mills Cooperative Ltd., No. 4324-Pandalam P.O., Distt. Alleppy.
2. The Cooperative Sugars Limited, Chittur, P.O. Menonpara, Distt. Palghat.

SCHEDULE VI

(See clause 2)

List of vacuum pan sugar factories erected prior to the 1st day of October, 1955, and have a licensed daily cane crushing capacity of:—

- (i) less than 1250 tonnes; or
- (ii) less than 1250 tonnes and have also not expanded the capacity to 1250 tonnes or more under the Liberalised Licencing Policy or otherwise; or
- (iii) less than 1250 tonnes and have also not crushed 1250 tonnes or more during each of the preceding five years.

PUNJAB

1. The Jagatjit Sugar Mills Co. Ltd., Phagwara, Distt. Kapurthala.

RAJASTHAN

1. The Mewar Sugar Mills Ltd., Bhupalsagar, Distt. Chitorgarh.
2. The Ganganagar Sugar Mills Ltd., Sriganganagar P.O., District Sri Ganganagar.

WEST UTTAR PRADESH

1. The U.P. State Corporation Limited, Unit Mohiuddinpur, P.O. Mohiuddinpur, District Meerut.
2. Shri Janki Sugar Mills and Company, Doiwala, District Dehradun.
3. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Sakhoti Tanda, P.O. Sakhoti Tanda, District Meerut.
4. The Jaswant Sugar Mills Ltd., Meerut City, District Meerut.

CENTRAL UTTAR PRADESH

1. Shiv Prasad Banarsidas Sugar Mills, Bijnor, District Bijnor.
2. H.R. Sugar Factory Private Limited, Bareilly, District Bareilly.
3. Rosa Sugar Works of Carew and Company Limited, Rosa, District Shahjahanpur.
4. The Seksaria Biswan Sugar Factory Private Limited, Biswan, District Sitapur.

EAST UTTAR PRADESH

1. The Ratna Sugar Mills Co. Ltd., Shahganj, Distt. Jaunpur.
2. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Barabanki Distt. Barabanki.
3. The Burhwal Sugar Mills Co. Ltd., Burhwal, Distt. Barabanki.
4. R.B. Lachmandas Sugar and General Mills Pvt. Ltd., P.O. Jarwal Road, Distt. Bahraich.
5. The Saksaria Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Bahban, Distt. Gonda.
6. The Basti Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Wateganj, Distt. Basti.

7. The Madho Mahesh Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Munderwa, Distt. Basti.
8. Shri Anand Sugar Mills, P.O. Khalilabad, Distt. Basti.
9. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., P.O. Pipraich, Distt. Gorakhpur.
10. The Punjab Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Ghughli, Distt. Gorakhpur.
11. Mahabir Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Siswabazar, Distt. Gorakhpur.
12. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Khadda, P.O. Rajabazar Khadda, Distt. Deoria.
13. Lakshmi Devi Sugar Mills Pvt. Ltd., Chhitaun, Distt. Deoria.
14. The Ishwari Khetan Sugar Mills Ltd., Lakshmiganj P.O., Distt. Deoria.
15. The Maheshwari Khetan Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Ramkola, Distt. Deoria.
16. Cawnpur Sugar Works Ltd., Kathkuiyan Factory Branch, P.O. Kathkuiyan, Distt. Deoria.
17. Shree Sitaram Sugar Co. Ltd., P.O. Baitalpur, Distt. Deoria.
18. Cawnpore Sugar Works Ltd., Gauri Factory Branch, P.O. Gauri Bazar, Distt. Deoria.
19. Deoria Sugar Mills Ltd., Deoria P.O., Distt. Deoria.
20. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Bhatni, P.O. Bhatni, Distt. Deoria.
21. The Partappur Sugar Mills Ltd., P.O. Partappur, Distt. Deoria.
22. The Ginesh Sugar Mills, P.O. Anandnagar, District Gorakhpur.

NORTH BIHAR

1. North Bihar Sugar Mills Ltd., Bagaha, P.O. Nafalpur, Distt. Champaran.
2. Camron Sugar Co. Ltd., Barah Factory Branch, P.O. Barachakia, Distt. Champaran.
3. The Sugauli Sugar Works Pvt. Ltd., Garaul, Distt. Champaran.
4. Sitalpore Sugar Works Ltd., P.O. Garaul, Distt. Muzaffarpur.
5. Tirhut Cooperative Sugar Factory Ltd., Ryam Factory P.O. District Darbhanga.
6. Sakri Sugar Works of the Darbhanga Sugar Co. Ltd., P.O. Sakri, Distt. Darbhanga.
7. Samastipur Central Sugar Co. Ltd., Samastipur Factory Branch, P.O. Samastipur, Distt. Darbhanga.
8. Sasa Musa Sugar Works Pvt. Ltd., P.O. Sasa Musa, Distt. Saran.
9. Bharat Sugar Mills Ltd., P.O. Sidhwa, Distt. Saran.
10. Cawnpore Sugar Works Ltd., Marhwarah Factory Branch, P.O. Marhwarah, Distt. Saran.
11. New Savan Sugar Mills, P.O. Siwan, Distt. Siwan.
12. Shree Krishna Gyanoday Sugar Ltd., P.O. Siwan, Distt. Siwan.
13. The Motipur Sugar Factory Private Ltd., P.O. Motipur, Distt. Muzaffarpur.

14. New Swadesh Sugar Mills Ltd., P.O. Narkatigraji, Distt. Champaran.

SOUTH BIHAR

1. Guraru Chini Mills, P.O. Guraru Mills, Distt. Gaya.
2. M/s. Mohini Sugar Mills Ltd., Warisaliganj Distt. Gaya.
3. South Bihar Sugar Mills Ltd., P.O. Bihta, District Patna.

MADHYA PRADESH

1. The Gwalior Sugar Co. Ltd., P.O. Dabra, Distt. Gwalior.
2. The Jiwaji Rao Sugar Co. Ltd., P.O. Dalanda, Distt. Mandasaur.
3. Jagra Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Jagra, Distt. Ratlam.
4. Seth Govindram Sugar Mills, P.O. Mehidpur Road, Distt. Ujjain.

MAHARASHTRA

1. Shri Chanddeo Sugar Mills Ltd., P.O. Chargoednagar, Distt. Ahmednagar.
2. The Saswad Mali Sugar Factory Ltd., PO Malinagar, Distt. Sholapur.
3. The Ravalgaon Sugar Farm Ltd., P.O. Ravalgaon, Distt. Nasik.
4. The Godavari Sugar Mills Ltd., P.O. Sakarwadi, Distt. Ahmednagar.

KARNATAKA

1. The Salarjung Sugar Mills (A Division of India Sugars and Refineries Ltd.), P.O. Munirabad, District Raichur.

ANDHRA PRADESH

1. Shri Rama Sugars and Industries Ltd., Seethahagaram Distt. Srikakulam.
2. Sri Rama Sugars and Industries Ltd., Bobbili, Distt. Srikakulam.
3. Anakapalle Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., P.O. Anakapalle, Distt. Visakhapatnam.
4. The Kirlampudi Sugar Mills Ltd., Pithapuram, District East Godavari.

TAMILNADU

1. Madura Sugars Ltd., Pandiarajapuram, District Madurai.
2. M/s. Palar Sugars Pvt. Ltd., P.O. Mailpatti, Distt. North Arcot.

ORISSA

1. Jeypore Sugar Co. Ltd., P.O. Rayagada, Distt. Koraput.

WEST BENGAL

1. The Ramnugger Cane & Sugar Company Ltd., P.O. Plassey, Distt. Nadia.

KERALA

1. The Travancore Sugars & Chemicals Ltd., Pamba River Factory, Tiruvalla, Distt. Quilon.

[No. 2-5/81-SPY(D-II)]

C.N. RAGHAVAN, Jr. Secy.
(Sugar)